



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1930 (श0)  
(सं0 पटना 3) पटना, शुक्रवार 2 जनवरी 2009

सं0-2प/वि6-73/2006/पं०रा०-6159  
पंचायती राज विभाग

संकल्प

4 दिसम्बर 2008

विषय—त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्ता तथा अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय की स्वीकृति।

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है। अतएव उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्तों तथा अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय की स्वीकृति दी गई है।

2. स्वीकृत प्रतिमाह भत्ते, बैठक शुल्क, यात्रा भत्ता की दरे निम्नवत् हैं :-

क्र०	पदधारक का नाम	नियत (प्रतिमाह) भत्ता	दैनिक भत्ता	यात्रा भत्ता
1	2	3	4	5
1.	जिला परिषद् अध्यक्ष	4000/- रु०	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०
2.	जिला परिषद् उपाध्यक्ष	3000/- रु०	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०
3.	पंचायत समिति प्रमुख	3000/- रु०	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०
4.	पंचायत समिति उप-प्रमुख	1500/- रु०	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०

5.	ग्राम पंचायत मुखिया	600/- रु०	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०
6.	ग्राम पंचायत उप-मुखिया	300/- रु०	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०
7.	ग्राम कचहरी सरपंच	600/- रु०	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०
8.	ग्राम कचहरी उप-सरपंच	300/- रु०	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०
9.	जिला परिषद् सदस्य	—	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०
10.	पंचायत समिति सदस्य	—	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०
11.	ग्राम पंचायत सदस्य	—	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०
12.	ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)	—	100/- रु०	5/- रु० प्रति कि०मी०

(i) यात्रा भत्ता के लिए दूरी की गणना निर्वाचित सदस्य के नामांकन पत्र में अंकित आवासीय पते से संबंधित पंचायती राज संस्थाएँ एवं ग्राम कचहरी के मुख्यालय की वास्तविक दूरी के आधार पर की जाएगी।

(ii) दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं की सामान्य/विशेष/स्थायी समिति की बैठक एवं ग्राम कचहरी की न्यायपीठ की बैठक में भाग लेने पर अनुमान्य होगा।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधि, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी की न्यायपीठ की बैठक में भाग लेने के लिए 100/- रु० प्रति बैठक की दर से विशेष मानदेय अलग से देय होगा।

4. यह दिनांक 01.04.2008 से प्रवृत्त होगा।

5. इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2प/वि6-73/2006/पं०रा०/3011 दिनांक 19.06.2008 को विलोपित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

ह०/-अस्पष्ट,

सरकार के प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 3-571+500-डी०टी०पी०।